

हे मंगल की मूल भवानी, शरणा तेरा है ::><::!

हे मंगल की मूल भवानी, शरणा तेरा है ।

तेरा है शरणा, तेरा है आसरा तेरा है ॥

मैया है ब्रह्मा की पुत्री, लेकर ज्ञान स्वर्ग से उतरी ।

आज तेरी कथा बना देई सुथरी, प्रथम मनाया है ॥ हे मंगल ॥

मैया तेरा भवन बन्या जाली का, हार गूँथ ल्याया है माली का ।

हो ध्यान धर कलकत्ते वाली का, पुष्प चढ़ाया है ॥ हे मंगल ॥

मैया महिषासुर को मारया, आपने बल से धरण पछाडया ।

हो हाथ लिए खांडा दुधारा, असुर संहार्या है ॥

कहता शंकर जाटौली वाला, हरदम रटे गुराजी जी की माला ।

हो खोल मेरे हृदय का ताला, विद्या वर पाया है ॥

बोल महिषासुर मर्दिनी मैया की जय....

बोल शंकर भगवान की जय....

बोल नाथजी महाराज की जय .